

थाना खुदागंज पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता,

अपने आप को जेलकर्मी बताकर बंदियों के परिजनो से ठगी करने वाला अंतर्जनपदीय वाहन चोर मुठभेड मे गिरफ्तार चोरी की 03 मोटरसाइकिल बरामद ।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में वाहन चोरी पर प्रभावी रोकथाम व वाहन चोरों की गिरफ्तारी कर चोरी किये गये वाहनों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान मे श्री निपुण अग्रवाल पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं श्री परमानन्द पाण्डेय क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन में थाना खुदागंज को मिली बड़ी कामयाबी मिली ।

दिनांक 11.01.2021 को रात्रि को थाना खुदागंज पुलिस को सूचना मिली कि नौगवा तिराहे के पास स्थित ब्रम्हदेव स्थान के पास एक व्यक्ति चोरी की मोटर साइकिल बेचने के लिए पिकअप मे लादने हेतु पिकअप के इन्तजार मे खडा है । सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँची तो अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया गया । पुलिस टीम द्वारा अपने आप को बचाते हुए घेराबन्दी कर अभियुक्त राजीव शर्मा को समय करीब 23.15 बजे ग्राम नौगवा तिराहे के पास स्थित ब्रम्हदेव स्थान के पास से गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त अभियुक्त शातिर किस्म के सक्रिय अपराधी है जो कई जिलो मे घूम-घूम कर मोटरसाइकिल चोरी व अन्य चोरी व लूट की घटनाओ को अंजाम देता रहता है । जिनके पास से 03 अदद मोटर साइकिल चोरी की बरामद हुई । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य जनपद के थानों में भी अभियोग पंजीकृत है । इस सम्बन्ध मे थाना पर मु0अ0सं0 015/2021 धारा 307/411 भादवि व मु0अ0सं0 016/2021 धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त मोटर साइकिल चोरी के साथ-साथ अपनआप को जेलकर्मी बताकर जेल मे निरुद्ध बंदियों के परिवार वालो से बंदियों को पैसे व सामान की आवश्यकता बताकर उनसे रुपये व सामान की ठगी कर लेता है ।

अभियुक्त की अपराध करने की कार्यप्रणाली

अभियुक्त राजीव शर्मा जो एक शातिर किस्म का ठग व चोर अपराधी है तथा पूर्व मे कई वर्ष तक बरेली, शाहजहाँपुर, फतेहगढ जेल मे बंद रहा है । विगत दिनों बरेली जेल से छूटने के उपरांत गावं गावं जाकर लोगों से जेल मे बंद कैदियों के बारे मे जानकारी करके कोरोना के दृष्टिगत कारागार मे बन्द कैदियो के परिवार वालो से मिलायी ना होने का लाभ उठाकर बन्दियो के परिवार वालो से अपनेआप को जेलकर्मी बताकर जेल मे निरुद्ध बन्दियो द्वारा सामान व रुपये की आवश्यकता बताकर बन्दियो के परिवार वालो से रुपये व सामान की ठगी कर लेता था ।

इसके अतिरिक्त उक्त अभियुक्त द्वारा मोटर साइकिल चोरी के साथ-साथ लोगो से मोटर साइकिल खरीदने के बहाने भी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो जाता था । थाना खुदागंज क्षेत्र के ग्राम रामपुर नवदिया के चन्द्रपाल पुत्र जालिम जो जिला कारागार फतेहगढ मे निरुद्ध है,के भाई राजबहादुर पुत्र जालिम निवासी ग्राम रामपुर नवदिया थाना खुदागंज से भी 4000 रुपये व खाने पीने का सामान की ठगी कर ले गया था तथा थाना खुदागंज के मो0 गिहार कालोनी की जेल मे निरुद्ध महिला के परिजनो से भी ठगी कर रहा था कि पुलिस के आने की आहट पर मौके से फरार हो गया था । जिसकी तलाश थाना खुदागंज पुलिस द्वारा की जा रही थी ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम-

1 राजीव शर्मा उर्फ राजेन्द्र पुत्र प्रेमपाल शर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम कपूरपुर गौटिया थाना फरीदपुर जनपद बरेली उ0प्र0 ।

बरामदगी का विवरण – (03 अदद मोटर साइकिल) (एक अदद तमंचा व 2 कारतूस जिन्दा व एक नाल मे फसा खोखा)

1-एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक खोखा नाल में फंसा हुआ 315 बोर

2- 03 अदद मोटर साइकिल क्रमशः (1. UP 27 AS 7616 हीरो स्पेलन्डर प्लस ,2. बिना नम्बर प्लेट की HERO HF DELUXE चेचिस न0 MBLHAC048L9G62741 इन्जन न0 HA11ERL9G24725 व 3. स्पेलन्डर प्रो बिना नम्बर प्लेट व चेचिस व इन्जन न0 खुरसे हुए अपठनीय)

अभियुक्त राजीव शर्मा उर्फ राजेन्द्र के विरुद्ध गैर जनपदीय थानो व थाना खुदागंज पर निम्न अभियोग पंजीकृत है , जिसका अपराधिक विवरण इस प्रकार है-

- 1- मु0अ0सं0 02/2015 धारा 379/411 भादवि थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।
- 2- मु0अ0सं0 166/17 धारा 398/401 भादवि थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।
- 3- मु0अ0सं0 167/17 धारा 4/25 ए एक्ट थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।
- 4- मु0अ0सं0 168/17 धारा 420/468/469/471/411 भादवि थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।
5. मु0अ0सं0 015/2021 धारा 307/411 भादवि थाना खुदागंज जिला शाहजहाँपुर ।
- 6- मु0अ0सं0 016/2021 धारा 3/25/27 ए एक्ट भादवि थाना खुदागंज जिला शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. थानाध्यक्ष श्री वकार अहमद खान थाना खुदागंज शाहजहाँपुर ।
2. उ0नि0 श्री स्वामीनाथ थाना खुदागंज जिला शाहजहाँपुर ।
3. उपनिरीक्षक श्री मनोज कुमार थाना खुदागंज जिला शाहजहाँपुर ।
4. का0 1261 दीपक कुमार थाना खुदागंज जिला शाहजहाँपुर ।
5. का0 1841 शाहरुख हसन थाना खुदागंज जिला शाहजहाँपुर ।
6. का0 2292 विकास कुमार थाना खुदागंज जिला शाहजहाँपुर ।
7. का0 2290 अंकित तोमर थाना खुदागंज जिला शाहजहाँपुर ।
8. का0 192 गौरव कुमार थाना कटरा जिला शाहजहाँपुर ।
9. का0 संजीव कुमार सर्विलासं सेल शाहजहाँपुर ।
10. का0 दुश्यन्त कुमार सिंह सर्विलासं सेल शाहजहाँपुर ।